Reg. Office Address:

Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110001 CIN: L70101DL2005GOI132162 Website: www.hpil.co.in Email: info@hpil.co.in, Tel: 011-23061325

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

HPIL/BS/Stx/2022-23

Dated: 30.05.2022

To, Manager, Listing Department BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street Mumbai: 400 001 To, Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Plot No. C/1,G Block, Bandra Complex, Bandra (E), Mumbai -400 051

Script Code: 543242

Symbol: HEMIPROP

Sub: Newspaper Publication

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2022, published on May 28, 2022 in the newspaper namely, Financial Express(English) and Jansatta (For Hindi).

This is for your information and records

Thanking you,

For Hemisphere Properties India Limited

Lubna Company Secretary & Compliance Officer

जनसत्ता, 28 मई, 2022 11

Ŋ

MODIPON LIMITED

Regd. Office:Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP)

CIN: L65993UP1965PLC003082 Phone: (01232) 243471; E-mail : modipon@modimangal.in Website : www.modipon.net

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter & Twelve Months ended 31" March, 2022

(Rs In Lakhs)

61	P. C. J.		Quarter ende	d	nine months ended	Year ended		
SI. No	Particulars	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	
1	Total income from operations (net)	0.00	132.65	0.01	136.05	136.05	133.21	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax and Exceptional items	(13.66)	112.38	(16.42)	79.81	66.15	58.19	
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (before Exceptional items)	(13.66)	112.38	(16.42)	79.81	66.15	58.19	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(13.66)	112.38	(16.42)	79.81	66.15	58.19	
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	(13.66)	112.38	(16.42)	79.81	66.15	58.19	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each	1157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	
7	Earnings Per Share (before Exceptional items) of Rs 10/- each Basic (Rs): Diluted (Rs):	(0.12) (0.12)	0.97 0.97	(0.14) (0.14)	0.69	0.57 0.57	0.50	
8	Earnings Per Share (after exceptional items) of Rs 10/- each Basic (Rs): Diluted (Rs):*	(0.12) (0.12)	0.97	(0.14) (0.14)	0.69	0.57 0.57	0.50	

n behalf of Board of Directors
in president of posting of presidents
Sd/-
(Manish Modi)
anaging Director
DIN 00030036
4

उया लिमिटेड

अलकनंदा, नई दिल्ली—110019 nityleague@trinitygroup.ind.in, सम्पर्क नं. 0120–4712800, 802

रकल वित्तीय परिणामों का विवरण (आईएनआर लाख में)

दिनांक: 27 मई, 2022 (DIN :00041150)					Ê1H	के लिए औ	इडिया लिमिटड र उनकी ओर से	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापर्		5 (a)	21 01		ार लाख में)
		नई दिल्ली : 26 मई 2022				(अध्यक्ष एवं	हस्ता/- (डी. थारा) प्रबंध निदेशक)	क्र. विवरण सं.	समाप्त तिमाही 31.3.2022 (लेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.3.2022	31.03.2022	31.03.2021
CIN: U74999DL2013PTC257162								1 आय (क) प्रचालनों से राजस्व	79.91	79.53	54.53	178.99	76.35
पंजीकृत कार्यालयः 839, भूतल, उपकार कॉलोनी बुरारी गांव,		<u> </u>	^					(ख) अन्य आय कूल आय (क+ख)	1.34 81.34	(3.36) (76.17)	(6.16) 60.69	1.55 180.54	19.86 96.21
संत नगर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, डीएल 110065 भारत		श्री वस्टे	टेक्स	लिमि	रटेड			2 व्यय			0.000		
सूचना		[CIN: L171	11DL1982	2PLC01379	0]	- 0		(क) कर्मचारी लागत (ख) वित्त लागत	5.62 4.45	6.01 1.76	5.73 1.25	19.84 10.18	21.48 6.00
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत)		पंजी. कार्यालयः 325, IIIरा तल, अग ई-मेल: shr		, सक्टर-14, रा @gmail.com	CALLERS CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	ल्ला–110085		(ग) हास एवं परिशोधन व्यय (घ) अन्य व्यय	4.39 6.97	1.79 91.95	1.99 12.86	9.76 132.23	7.01 43.81
1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अनुसरण में,		वेबसाईट: www.shr						कुल व्यय	21.43	101.51	21.83	172.01	78.30
और मेसर्स इंटुगिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2013PTC257162) द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के वर्तमान पते से		31 माच, 2022 का समाप्त तिमाहा एव वर्ष	ब कालए उ	अकाक्षत वित्ता	य पारणामा		त्राखां में)	3 आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ∕(हानि) (1–2) 4 आपवादिक मदें	59.91	(25.34)	38.86	8.53	17.91
#839, भूतल, उपकार कॉलोनी बुराड़ी गांव, संत नगर दिल्ली दक्षिण दिल्ली डीएल	क्रम	विवरण		समाप्त तिमाही	T	(रु.		5 कर पूर्व लाम / (हानि) (3-4) 6 कर व्यय:	59.91	(25.34)	38.86	8.53	17.91
110065, जो कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में है, से तीसरी मंजिल, 16वीं मेन	सं.	-	01.01.2022	01.10.2021	01.01.2021	01.04.2021	01.04.2020	चालू कर पूर्व वर्षों के लिये चालू कर	0.37 (0.03)	-	3.36	0.37 (0.03)	3.36
रोड, बीडीए कॉम्प्लेक्स के पीछे, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक– 560034, जो कंपनी			से 31.03.2022	से 31.12.2021	से 31.03.2021	से 31.03.2022	से 31.03.2021	आस्थगित कर	(0.39)	-	0.16	(0.39)	(0.16)
रजिस्ट्रार, कर्नाटक के अधिकार क्षेत्र में है, में स्थानांतरण की पुष्टि के लिए क्षेत्रीय निदेशक,		परिचालनों से कुल आय	7.32	31.94	44.60	228.18	104.61	7 अवधि हेतु निवल लाभ∕(हानि) (5—6) 8 अन्य व्यापक आय	59.96	(25.34)	35.34	8.58	14.39
कंपनी मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली को आवेदन किया जा रहा है। 2. आगे यह भी सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति,		अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(67.04)	9.56	10.70	123.56	53.93	 (1) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी (करों का निवल) (2) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत होंगी (करों का निवल) 	-	-	(2.32)	(0.47)	(2.32)
फर्म, कंपनी या निगम इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीय	3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(67.04)	9.56	10.70	123.56	53.93	9 अवधि हेतु कुल व्यापक आय (7+8)	59.96 506.69	(25.34) 506.69	(33.02) 506.69	8.11 506.69	12.07 506.69
निदेशक, कंपनी मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन,		कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(54.66)	7.04	7.50	105.48	48.40	10 चुकता समता अंश पूंजी (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य) 11 अन्य इविवटी	-	-	-	(210.86)	(218.97)
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को एक पत्र द्वारा क्षेत्रीय निदेशक को इस तरह	5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर	(57.88)	7.04	65.75	(47.83)	159.22	12 आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत): (क) मूल	1.18	(0.50)	0.70	0.17	0.28
की आपत्ति की सूचना दे सकता है।		के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)						(ख) तरल	1.18	(0.50)	0.70	0.17	0.28
कृते इंटुगिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	6.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/– प्रति) आरक्षित (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई	314.00 259.03	314.00 259.03	314.00 99.81	314.00 259.03	314.00 99.81	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के	लेखापरीक्षित	त समेकित वि	त्तीय परिणाम		
हर्षिता श्रीवास्तव मृनल राय निदेशक निदेशक		पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	239.03	259.03	99.01	259.03	99.01					(आईएन	नआर लाख में
ानदशक डीआईएनः 06635287 डीआईएनः 06635303	8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)						क्र. विवरण सं.	समाप्त तिमाही 31.3.2022	ि समाप्त तिमाही 31.12.2021	समाप्त तिमाही 31.3.2021	समाप्त वर्षे 31.03.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2021
स्थानः दिल्ली दिनांकः 24 मई, 2022		मूलः तरलः	(1.74) (1.74)	0.22	0.24 0.24	3.36 3.36	1.54 1.54		(अलेखापरीक्षित)) (अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	टिप			1.114/55/05/07/9		0000(7078) 11		1 आय (क) प्रचालनों से राजस्व	79.91	79.53	54.53	178.99	76.35
कोणार्क कमर्शियल लिमिटेड		31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा व					approving dependent	(ख) अन्य आय कुल आय (क+ख)	1.34 81.34	(3.36) 76.17	6.16 60.69	1.55 180.54	19.86 96.21
पंजी. कार्यालयः बी.आर. चांडक मार्केट, मारुवाड़ी पट्टी, वार्ड नंबर 6, गुवाहाटी-785001,(असम)		द्वारा समीक्षा की गई तथा 26 मई, 2022	2 को आयो	जित बैठक में	में कम्पनी वे	के निदेशक म	वंडल द्वारा	2 व्यय (क) कर्मचारी लागत	5.62	6.01	5.73	19.84	21.48
ईमेलः konarkcommerciallimited@gmail.com, वेबसाइट: www.konarkcommercial.com मो. नं.: 896116379, CIN NO: L51109AS1988PLC002916		अनुमोदित किये गये। उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व त	नभा अञ्च उ	टघाटन अपेश्व	ग) विनियम	न २०१६ के	विनियमन	(ख) वित्त लागत (ग) ह्रास एवं परिशोधन व्यय	4.45 4.39	1.76 1.79	1.25 1.99	10.18 9.76	6.00 7.01
यह विज्ञापन ("विज्ञापन") कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("डीलिस्टिंग विनियम") के अध्याय VI के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक असूचीबद्धता के संबंध में जारी किया		33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल		-				(घ) अन्य व्यय कल व्यय	6.97 21.43	91.95 101.51	12.86 21.86	132.23 172.01	43.81 78.30
जा रहा है।		वित्तीय परिणामों का सम्मूर्ण प्रारूप स्टॉक			-			3 आपवादिक मदों, कर तथा एसोसिएट में लाभ/(हानि) के अंश से पूर्व	59.91	(25.34)	38.86	8.53	17.91
 डीलिस्टिंग की तिथि की सूचना कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों को मेसर्स मेट्रो कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (प्रमोटर एक्वायरर) द्वारा किए गए डीलिस्टिंग 		ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.msei.in					ia.com)	लाभ ⁄ (हानि) (1–2) 4 समता विधि का उपयोग करने हेतु गणनाकृत एसोसिएट में लाभ ⁄ (हानि)	76.24	(75.59)	(23.84)	12.21	(63.70)
ऑफर और अपेक्षित सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति के बाद, एक आवेदन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एमएसईआई") को 16 मई, 2022 को एमएसईआई से कंपनी के इक्विटी शेयरों को हटाने के लिए किया था।		तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् (www		orstex.in) देशक मंडल			र ओर मे	का अंश 5 आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि) (3+4)	136.15	(100.93)	15.02	20.74	(45.79)
एमएसईआई ने अपने परिपत्र संख्या एमएसई/एलआईएसटी/11867/2022 दिनांक 26 मई, 2022 के साथ पठित पत्र संख्या				पराक नडल		राया उसक श्री वर्स्टेक्स	Record Andrew Control	6 आपवादिक मदें—व्यय 7 कर पूर्व लाभ ∕ (हानि) (5—6)	- 136.15	- (100.93)	- 15.02	20.74	(45.79)
एमएसई/एलआईएसटी/2022/665 दिनांक 26 मई, 2022 के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों में 02 जून, 2022 से व्यापार बंद/निलंबित कर दिया जाएगा और कंपनी के इक्विटी शेयरों को 09 जून, 2022 ("डीलिस्टिंग की							हस्ता./-	8 कर व्ययः चालू कर	0.37	-	3.36	0.37	3.36
तिथि") से एमएसईआई रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इक्विटी शेयरों को असुचीबद्ध करने का मतलब है कि उनका अब एमएसईआई पर कारोबार नहीं होगा और इक्विटी शेयरों के	0.1014/022010-0	T: 26.05.2022			पवन कुम	ार मित्तल (SPECIAL DOM (0.0757-001) (0.001) 	पूर्व वर्षों के लिये चालू कर आस्थगित कर	(0.03) (0.39)	-	- 0.16	(0.03) (0.39)	0.16
व्यापार के लिए एक तरल बाजार मौजूद नहीं रहेगा।	स्था	नः नई दिल्ली				DIN: 00	749265	9 अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (7-8) 10 अन्य व्यापक आय	136.20	(100.93)	11.50	20.79	(49.31)
 डीलिस्टिंग के बाद बकाया इक्विटी शेयर डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 26(1) के अनुसार, कंपनी के शेष सार्वजनिक शेयरधारक जो डीलिस्टिंग प्रक्रिया में भाग लेने 								 (1) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी (करों का निवल) (2) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत होंगी (करों का निवल) 	-	-	(2.32)	(0.47)	(2.32)
में सक्षम नहीं थे या नहीं थे या जिन्होंने डीलिस्टिंग प्रक्रिया में अपने इक्विटी शेयरों को असफल रूप से टेंडर किया था, वे अपनी इक्विटी की पेशकश प्रमोटर एक्वायरर को शेयर 15/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर ("निकास मुल्य") की कीमत पर सभी	_		~ ~ ~					 (2) में जा लाम अंबचा हाल में उन्होंने में उनवनीकूत हाला (करा का लिवल) 11 अवधि हेतु कुल व्यापक आय (7+8) 12 चुकता समता अंश पूंजी (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य) 	136.20 506.69	(100.93) 506.69	9.18 506.69	20.32 506.69	(51.63) 506.69
स्टॉक एक्सचेंजों ("डीलिस्टिंग की तिथि") यानी ("निकास अवधि") से असूचीबद्ध होने की तारीख से शुरू होने वाले एक वर्ष की न्यनतम अवधि के लिए करने में सक्षम होंगे।		चि इं2इ	ई नेटव	त्रक्स र्र	लमिटे	ड		13 अन्य इक्विटी	-	-	-	(259.67)	(279.99)
इस संबंध में प्रस्ताव पत्र ("निकास प्रस्ताव पेशकश") शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजा जाएगा, जिनका नाम डीलिस्टिंग			•	00DL2009PL				14 आय प्रति अंश (रु. 10 / — प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत): (क) मूल	2.69	(1.99)	0.23	0.41	(0.97)
की तारीख को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है। यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक अपने निकास प्रस्ताव पत्र को प्राप्त नहीं कर रहा है, या खो गया है, तो वे कंपनी या कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर		पजीं. कार्यालयः ए						(ख) तरल टिप्पणियां :	2.69	(1.99)	0.23	0.41	(0.97)
सकते हैं। 3. शेष शेयरधारकों को विचारार्थ भगतान		इडास्ट्रयल Email: investors(रोड, साहिबाबाद, ks.com, Websit				1) उपरोक्त परिणामों की लेखा-परीक्षक समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा	परिणामों को निदेश	गक मंडल द्वारा 27	मई, 2022 को उ	गयोजित की गई	अपनी बैठक मे
किसी भी नियामक अनुमोदन के अधान, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, प्रमोटर एक्वायरर मासिक आधार पर संबंधित महीने		31 मार्च, 2022 क	ो समाप्त तिमाही	ो तथा वर्ष के अ	अंकेक्षित परिणा	ामों का विवरण		अनुमोदित किया गया है। 2) कंपनी के संवैधानिक लेखा–परीक्षकों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ((सूचीकरण दायित्व	एवं प्रकटीकरण अ	गवश्यकताएं) विनि	यमावली 2015 यः	था–संशोधित के
के अंत के 10 कार्य दिवसों ("मासिक भुगतान चक्र") के भीतर भुगतान करने का इरादा रखता है। भुगतान केवल उन सार्वजनिक शेयरधारकों को किया जाएगा, जिन्होंने निकास प्रस्ताव पत्र और संलग्न आवेदन फॉर्म ("निकास आवेदन प्रपत्र")	14	(जब त	क अन्यथा वणि	र्गत नहीं से, आइ	ईएनआर लाखों	मे)	100	विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एव 3) चूंकि कंपनी एक खण्डवार में प्रचालन करती है अतः कोई भी खण्डवार प्रवि	वं वर्ष के एकल एवं	वं समेकित वित्तीय			
में दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने इक्विटी शेयरों को वैध रूप से टेंडर किया है। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पहला मासिक भुगतान चक्र 30 जून, 2022 से शुरू होगा।	क्रम सं	विवरण	स	नमाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		4) 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के आंकडे सम्पूर्ण	वित्त वर्ष तथा संश	गोधित वित्त वर्ष की	गे तीसरी तिमाही	तक तिथि तक अ	नंकेक्षित वर्ष के
सभी प्रश्न कंपनी को पंजीकृत कार्यालय के पते पर निर्देशित किए जा सकते हैं।			31.3.2022 अनंकेक्षित	31.12.2021 अनंकेक्षित	31.3.2021 अनंकेक्षित	31.3.2022 अंकेक्षित	31.03.2021 अंकेक्षित	प्रकाषित आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलक आंकड़े हैं ज 5) पूर्ववर्ती वर्ष / अवधियों के आंकड़ों को, चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने			नझा गया है, पुनर्सग]हित ∕ पुनर्व्यवस्थित	1 किया गया है
27 मई 2022 कृते कोणार्क कमर्शियल लिमिटेड बी आर चांडक मार्केट, मारवाड़ी पट्टी, हस्ता/- विशाल कुमार शर्मा		6	(टिप्पणी 1)		(टिप्पणी 1)						ॅ कृ	ते ट्रिनिटी लीग इ	इंडिया लिमिटेड हस्ता./–
वार्ड नंबर 6, गुवाहाटी- 785001, (असम) पूर्णकालिक निदेशक	I.	प्रचालनों से राजस्व अन्य आय	1416.47 11.52	3.46	14.99	5,187.34 35.51	3,530.26 95.54					देवि	वेंदर कुमार जैन
डीआईएन: 07310503	II. III.	कुल राजस्व (1+11)	14,27.99	1,371.60 357.91	1,025.75 341.66	5,222.85 1,441.21	3,625.80	दिनांकः 27 मई, 2022 स्थानः नोएडा				डीआई	प्रबंध निदेशक रिएनः 00437646
प्रपत्र सं. आईएनसी-26	IV.	खचें सेवाओं तथा कंज्यूमैबल्स का क्रय कर्मचारी लाभ व्यय	279.45	244.37	234.34	1,015.46	870.21						
(कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)		मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय वित्त लागत	554.81 5.48	508.41 3.84	445.06 11.22	1,782.64 18.60	1,235.77 17.92	MEGA NIRMAN &			MITED		
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये		अन्य खर्चे	146.27	92.90	75.47	436.34	352.99 3,749.91	CIN: L70101 Regd. Off.: A-6/343B, 1st Floo	DL1983PLC015 or. Paschim Vih		-110063		
समाचार-पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन केन्द्र सरकार नई दिल्ली के समक्ष	_{V.}	कुल खर्चे (IV) विशिष्ट मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि)(III+IV) व्यय	87.52	164.17	(82.00)	528.60	(124.11)	Contact No.: 011-49879687, E-	-mail Id:secreta	arial.mnil@gm	nail.com		
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में	VI.	विशिष्ट मदों कर से पूर्व लाभ/(हानि)(V+VI)	87.52	164.17	2=	528.60	(124.11)	FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR			00000	(Amount in Lakh	
तथा	VII. VIII.	कर व्यय	-		(82.00)		-	An and a supervised and a supervised as a supervised of the supervised of th	Quarter Ended (March	Quarter Ended December	Quarter Ende March		Year ended 31" March,
स्किम्ड (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय		क)चालू कर ख) आस्थगित कर	(166.50)	10 00 10 00		(116.50)	-	PARTICULARS	31, 2022	31, 2021	31, 2021	2022	2021
''एफ नं203, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066'' में है, के	IX.	कर से पश्चात अवधि/वर्ष के लिये लाभ/(हानि)(VII+VIII) अन्य व्यापक आय) 204.02	164.17	(82.00)	645.10	(124.11)	Total income from operations	Audited 20.65	Un-Audited 6.52	Audited 6.04	Audited 40.99	Audited 30.22
मामले में आवेदक एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''एफ नं.–203, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी	X	क)i)ऐसी मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकृत की जाएगी	651.98	12 -	157.98	651.98	157.98	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax/after tax & Exceptional	9.53	1.20	(4.87)	7,19	4.56
रतिद्धारा आम जनता का सूचित किया जाता है कि "एफ न203, महिता बिल्डिंग, 4, माकाजा कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066'' से 1605, रेगस, लेवल 16वां, वर्ल्ड ट्रेड टावर, नोएडा–		ii)ऐसी मदों से संबंधित आय कर जो लाभ अथवा हानि मं पुनवर्गीकृत नहीं की जाएगी	164.09	-		(164.09)	(31.64)	& Extraordinary items & other comprehensive income) Equity Share Capital	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75
201301, उ.प्र. में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने		ख) i)ऐसी मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकृत की जाएग ii)ऐसी मदों से संबंधित आयकर जो लाभ अथवा हानि गं	îî − ₽` −	12	(31.64)		-	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		-			-
के लिए 19.05.2022 को आयोजित असाधारण आमसभा वार्षिक आम सभा में पारित विशेष		पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी			-	_	-	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				91	
प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का	XI.	अवधि/वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (IX+X) अविध/वर्ष वे लिये लाभ/हानि तथा अन्य व्यापक कार्य से शामिल	फ 691.91	- 164.17	44.34	1,132.99	2.23	(for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (Rs.)	0.28	0.04	(0.15)	0.21	0.14
आधानयम, 2013 का धारा 13 के अंतगत यह कंपना कन्द्र सरकार के पास आवदन करने का प्रस्ताव करती है।	XII.	प्रति इक्विटी शेयर आय/हानि 1)मूल	1.41	1.13	(0.57)	4.46	(0.86)	2. Diluted (Rs.)			25, 25		
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित		1) मूल 2)तरल	1.40	1.13	(0.57)	4.44	(0.86)	Notes: 1. The Audited Financial Results of the company have been prepared	in accordance v	with Indian Acon	unting Standard	s("Ind AS") notif	led under the
	11000 000								ALC: NOT AND A STATE OF A DATE OF	TANKS AND A DAMAGE OF THE STATE	The second second second second second	and the second se	ADDRESS TATION STATISTICS.

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

क.		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021								1 Total income from operations (0.00	132.6
सं.	विवरण	को समाप्त	को समाप्त	को समाप्त	को समाप्त		31 मार्च, 2022 को समाप्त वि	वेगाही और	वर्ष के विनी	य प्रतिणामों	का गाउ	0	2 Net Profit / (Loss) from ordinary Exceptional items	y activities before tax and	(13.66)	112.3
		तिमाही (अंकेशित)	तिमाही (अंकेक्षित)	वर्ष (अकेथित)	वर्ष (अंकेशित)		51 माथ, 2022 फी समाप्त ह	तमाहा आर	पप कावता	प पारणामा	का सार	(र लाख में)	3 Net Profit / (Loss) from ordinar	y activities after tax	(13.66)	112.
	कुल आय	(अकाक्षत) <u>36.62</u>	(अकाक्षत) <u>10.77</u>	(अकाक्षत) <u>167.36</u>	(अकाक्षत) 87.04			सग	माप्त तिमाही के	लिए	समाप्त व	ार्थ के लिए	(before Exceptional items) 4 Net Profit / (Loss) for the period	d after tax	(13.66)	112.
	कुल जाव कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्धलाभ⁄	(96.27)		(300.27)		1	विवरण				31.03.2022		(after Exceptional items)			
	(हानि) (असाधारण मदों से पूर्व)					Terrer	से कुल आय (शुद्ध)	(अनअंकेक्षित)	(अनअकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	5 Total comprehensive income fo [Comprising Profit / (Loss) for t	the period (after tax) and	(13.66)	112.
3.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्धलाभ⁄ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(96.27)	(94.52)	(300.27)	(325.36)	कर पूर्व	सामान्य गतिविधियों से शद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण	(956.96)	(163.04)	(821.85)	(1863.86)	(1008.38)	Other Comprehensive Income 6 Paid up Equity Share Capital (I		1157.67	1,157.6
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/	(91.68)	(90.77)	(281.88)	(310.37)	मदों से 1	पहले)	Charles Contractor	a dependence e		1.7650000000	a the second	7 Earnings Per Share (before Ex			
	(हानि) (असाधारण मदों के बाद)					कर पूर्व मदों के	सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण बाद)	(956.96)	(163.04)	(821.85)	(1863.86)	(1008.38)	Rs 10/- each Basic (Rs):		(0.12)	0.5
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [कर के बाद लाभ⁄(हानि) को शामिल करके		(95.42)	(279.56)	(315.02)	कर के ब	बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण	(579.15)	(163.04)	(608.17)	(1486.05)	(745.34)	Diluted (Rs):		(0.12)	0.3
	क बाद लाभ/(हान) का शामिल करक तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]					मदों के	बाद)					65°	8 Earnings Per Share (after exce Rs 10/- each	eptional items) of		
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	231.30	231.30	231.30	231.30		बाद कुल व्यापक आय और गैर नियंत्रित ब्याज क्वेटी शेयर पूंजी	(579.15) 28500	(163.04) 28500	(608.17)	(1486.05) 28500	(745.34)	Basic (Rs):		(0.12)	0.9
7.	पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलनपत्र में दर्शाए	-	-	434.48	689.96	The second s	कटा शवर पूजा नेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व		28500	28500	- 28500	28500	Diluted (Rs):*		(0.12)	0.3
	अनुसार आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)					को छोड़	कर रिजर्व						Note : The above is an extract 33 of the SEBI (Listing Obligation			
8.	आय प्रति शेयर (10 रु. प्रति) जारी					1012 Y 102 A 11	र आय (संचालन जारी रखने और बंद करने से)	5	5=3				available on the Company's Websit	te at www.modipon.in and als	so be accesse	ed on the v
	एवं बंद प्रचालनों के लिए) मुलः	(3.96)	(3.92)	(12.19)	(13.42)	बेसकि: डायर्ल्यू	3-	(0.20)	(0.06)	(0.21)	(0.52)	(0.26)				
	नूलः तनुकृतः	(3.96)	and the second sec	A CONTRACTOR OF A CARDINE CONTRACTOR OF A CARDINAL AND A CARDINAL	(13.42)) (0.20) रिपाणों को रिकॉ	(0.06) हे में लिया गया अ	(0.21) ਪੀਤ ਜ਼ਿਟੇਬਾਨ ਸ਼ੱਦ	(0.52) ल टाग २६ ०६ २०)	(0.26) २२ को आयोजित	Place: New Delhi			
टिप्प	गी: उपरोक्त विवरण सेबी (आपत्तियों के सूच	। वीकरण तथा प्रकृ	। व्टीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 20	015 के विनियमन	बैठक मे	. २०२२ फो समाया तिमाहा जार पेष के लिए उपरावत प अनुमोदित किया गया। इन परिणामों की लेखापरीक्षा समि	भूति द्वारा समीक्षा व	की गई है और सां	वधिक लेखापरीक्ष	शकों द्वारा ऑड्रिट वि	वेया गया है।	Date: 27-05-2022			
	5 अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल तिमाही और 6 वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण कंपनी व					नोट्सः- आवश्प	, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त प अनुमोदित किया गया। इन परिणामों की लेखापरीक्षा समि उपरोक्त 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष कृताएँ) विनियम, 2015 के विनियमून् 33 के तहत स्टॉक	ं के विस्तृत प्रारू एक्सचेंजों के सा	प का एक उद्धर 1थ दायर किया ग	ण हे, जिस संबी या है। उपरोक्त	(सूचीकरण ओर अ समाप्त तिमाही औ	अन्य प्रकटीकरण रि वर्ष के वित्तीय		टिनिटी	लीग इ	इंडिय
की वे	बसाईट (www.bseindia.com) पर उपल	तब्ध है।	दि	ते प्रवे कते नि	देशकों का बोर्ड	परिणाम	ों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bs उपलब्ध है।	eindia.com/ w	www.nseindia.o	com) और कंपर्न	ो की वेबसाइट (w	ww.hpil.co.in)	सीआईएनः L93000DL1988PLC	पंजीकृत कार्यालयः ए–23	, मंदाकिनी ए	रन्क्लेव, अ
	: कोलकाता		16	एस टं	के शर्मा, अध्यक्ष	पर मा ए	5-4 (1984) () I			राई	वेस्फेयर प्रॉपर्टीज		साआइएनः L93000DL1988PLC 31 मार्च, 2022 को समाप			
दिनांव	ह: 27 मई, 2022			(DIN	N :00041150)						के लिए औ	र उनकी ओर से		विवरण		समाप्त ति
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				<u> </u>	स्थान •	नई दिल्ली					हस्ता/- (डी. थारा)	सं.			31.3.202
	इंटुजिन टेक्नोलॉ				125	and the second sec	: 26 मई 2022				(अध्यक्ष एवं	प्रबंध निदेशक)				(लेखापरीहि
	CIN: U749				_								1 आय (क) प्रचालनों से राजस्व			79.91
	पंजीकृत कार्यालय: 839, संत नगर दिल्ली, दक्षि				ч,	-	<u> </u>	<u>r</u>	20				(ख) अन्य आय कुल आय (क+ख)			1.34 81.34
	सत नगर ादल्ला, दक्षि	24. 17. JOLANS 12404	કારલ 110	००० भारत					लिगि				2 व्यय (क) कर्मचारी लागत			5.62
	(कंपनी अधिनियम,	सूचना 2013 की	धाम 🗤 🗎	्रतहरू \			[CIN: L17 पंजी. कार्यालयः 325, IIIरा तल, अ	111DL198 गरवाल प्लाजा	2PLC01379 , सेक्टर-14	90] रोहिणी. नई दि	ल्ली-110085		(ख) वित्त लागत			4.45
							ई-मेल: sh	reewortex(@gmail.con	n			(ग) ह्रास एवं परिशोधन व्यय (घ) अन्य व्यय			4.39 6.97
	तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंप गैर मेसर्स इंटुगिन टे	ग्ना आधानयः क्नोलॉजीज					वेबसाईट: www.sh 31 माच, 2022 का समाप्तातमाहा एव व						कुल व्यय 3 आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाग	म ∕ (हानि) (1−2)		21.43 59.91
	गर मसस ३९ुगम ट 174999DL2013PTC257162) ह						न गाम, 2022 का तमापा तमाहा एव व					त्वाखाँ में)	3 जानपारिक मदों 4 आपवादिक मदें 5 कर पूर्व लाम∕(हानि) (3–4)	and which is an other		59.91
#	839, भूतल, उपकार कॉलोनी बु	राड़ी गांव, र	संत नगर दिल	ल्ली दक्षिण	दिल्ली डीएल	क्रम	विवरण		समाप्त तिमाही	Г	समाप्त		6 कर व्ययः			
0.65	10065, जो कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली		19일 - 1920년 - 19일 - 1940년 19 년 1 일 - 1920년 - 193		지하는 것은 왜 도망한 것을 가지?			and the second second second second second	a substant of the second s	and the second se	01.04.2021		चालू कर पूर्व वर्षों के लिये चालू कर			0.37 (0.03)
	ाड, बीडीए कॉम्प्लेक्स के पीछे, व जिसराए कर्जारक के शशिकाए क्षेत्र	The second s	-		Stand Street Stree			से 31.03.2022	से 31.12.2021	से 31.03.2021	से 31.03.2022	से 31.03.2021	आस्थगित कर 7 अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) ((5-6)		(0.39) 59.96
	जिस्ट्रार, कर्नाटक के अधिकार क्षेत्र जपनी मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र		9				परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ (हानि) (कर, विशिष्ट	7.32 (67.04)	31.94 9.56	44.60 10.70	228.18 123.56	104.61 53.93	8 अन्य व्यापक आय			37.90
	गणे मानला के मत्रालय, उत्तरा क गणे यह भी सूचना दी जाती है कि	2 C					एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)			60.023898507794			 (1) मदें जो लाभ अथवा हानि में (2) मदें जो लाभ अथवा हानि में 	पुनर्वर्गीकृत होंगी (करों का नि		-
े प	र्जम, कंपनी या निगम इस नोटिस वे	के प्रकाशन व	की तारीख से	30 दिनों के	5 भीतर क्षेत्रीय		कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(67.04)	9.56	10.70	123.56	53.93	9 अवधि हेतु कुल व्यापक आय (7- 10 चुकता समता अंश पूंजी (रु. 10/-	+8)		59.96 506.69
	।देशक, कंपनी मामलों के मंत्रालय, '	1999 (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)				4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(54.66)	7.04	7.50	105.48	48.40	11 अन्य इक्विटी 12 आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येव	conceptor evenus and the sector of		1077
	ोजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110 री आपनि की सत्तना है सकता है।		फ पत्र द्वारा क्षे	त्राय निदेशक	न का इस तरह	5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय		7.04	65.75	(47.83)	159.22	(क) मूल	w अग) (जनामकाकृत):		1.18
⁴	ी आपत्ति की सूचना दे सकता है।			.)~			(कर के बाद से शामिल)		light designs a series of the	12 (1997), 10 (1997)			(ख) तरल			1.18
- भीइ	कृते इंटुगिन टेव 11 श्रीवास्तव	লালা जা ज !	प्राइवट ालमि	165	मृनल राय	7.	.इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/– प्रति) आरक्षित (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई	314.00 259.03	314.00 259.03	314.00 99.81	314.00 259.03	314.00 99.81	31 मार्च, 2022 र	को समाप्त तिमाही एव	। वर्ष के ते	लेखापरी
निदेश					नृगर्भ राष निदेशक	8.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा						क्र. विवरण		<u> </u>	समाप्त ति
	ईएन: 06635287			डीआईएन	: 06635303		अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)						. सं.			31.3.20
	ाः दिल्ली दिनांकः 24 मई,	2022					मूलः तरलः	(1.74) (1.74)	0.22 0.22	0.24 0.24	3.36 3.36	1.54 1.54				(अलेखापरी
						टिप	रणीः						1 आय (क) प्रचालनों से राजस्व			79.91
		कमर्शियल				1. A 1.	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा					NEWSROUP STRUCTURE STRUCTURES IN	(ख) अन्य आय कुल आय (क+ख)			1.34 81.34
	lì. कार्यालयः बी.आर. चांडक मार्केट, ग ईमेलः konarkcommerciallimited@gr	A PROPERTY AND A PROP		······································	CONTRACTOR STOCK		द्वारा समीक्षा की गई तथा 26 मई, 202 अनुमोदिन किसे गरो।	22 को आयो	जित बैठक	में कम्पनी वं	के निदेशक म	नडल द्वारा	2 व्यय (क) कर्मचारी लागत			5.62
	मो. नं.: 896116379, 0	CIN NO: L511	109AS1988PL	_C002916			अनुमोदित किये गये। उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व	तथा अन्य व	दघाटन अपे	क्षा) विनियम	म. 2015 के	विनियमन	(ख) वित्त लागत (ग) ह्रास एवं परिशोधन व्यय			4.45 4.39
	ाज्ञापन ("विज्ञापन") कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभू लेस्टिंग विनियम") के अध्याय VI के अनुसार कं	नूति और विनिमय	बोर्ड (इक्विटी शे	यरों का डीलिस्टिं			33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखित						(घ) अन्य व्यय कुल व्यय			6.97 21.43
जा रह	ा है।	ા તે ગે શેલવેદી શે		ચ્ય્યુવાવ⊗ા વ≬	तन्तन्त्व आरा ाकथा		वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक						3 आपवादिक मदों, कर तथा एसोरि लाम∕(हानि) (1–2)	भएट में लाभ⁄(हानि) के अंश	से पूर्व	59.91
कंप	लिस्टिंग की तिथि की सूचना नी के सार्वजनिक शेयरधारकों को मेसर्स मेट्रो क						ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.msei.in	2012.23 L 0010 8551				lia.com)	 लाभ / (हाान) (1-2) समता विधि का उपयोग करने हे का अंश 	तु गणनाकृत एसोसिएट में ला	भ / (हानि)	76.24
ऑप	तर और अपेक्षित सार्वजनिक शेयरधारकों की स मेटेड ("एमएसईआई") को 16 मई, 2022 को 1	गहमति के बाद, ए	रक आवेदन मेट्रोप	ॉलिटन स्टॉक एव	स्सचेंज ऑफ इंडिया		तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् (ww				ग ह । तथा उसर्क	ो ओर मे	5 आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाग	म⁄(हानि) (3+4)		136.1
एमए	रसईआई ने अपने परिपत्र संख्या एमएसई/एलआ	ाईएसटी/11867/2	2022 दिनांक 26	मई, 2022 के सा	ाथ पठित पत्र संख्या						श्री वर्स्टेक्स		6 आपवादिक मदें—व्यय 7 कर पूर्व लाभ∕(हानि) (5—6)			- 136.1
जून,	रसई/एलआईएसटी/2022/665 दिनांक 26 मई, 2022 से व्यापार बंद/निलंबित कर दिया जाएग	गा और कंपनी के				State and						हस्ता.∕-	8 कर व्ययः चालू कर			0.37
तिथि	r") से एमएसईआई रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा वटी शेयरों को असूचीबद्ध करने का मतलब है वि	ri –				0.00.0000000	a: 26.05.2022			पवन कुम	गर मित्तल (Sec. Solver and second second second	पूर्व वर्षों के लिये चालू कर आस्थगित कर			(0.03 (0.39
व्याप	गर के लिए एक तरल बाजार मौजूद नहीं रहेगा।		1			स्था	नः नई दिल्ली				DIN: 00	/49265	9 अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (10 अन्य व्यापक आय			136.20
डीलि	लिस्टिंग के बाद बकाया इक्विटी शेयर तस्टिंग विनियमों के विनियम 26(1) के अनुसार,												(1) मदें जो लाभ अथवा हानि में (2) मदें जो लाभ अथवा हानि में	पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी (करों क पूनर्वर्गीकत होंगी (करों का जि	का निवल) नेवल)	
	नक्षम नहीं थे या नहीं थे या जिन्होंने डीलिस्टिंग नी इक्विटी की पेशकश प्रमोटर एक्वायरर को शेय							· ·		~ ~ *			11 अवधि हेत् कुल व्यापक आय (7+	-8)		136.20
स्टॉव	क एक्सचेंजों ("डीलिस्टिंग की तिथि") यानी ('	"निकास अवधि")					न ई?	ई नेटल	वर्क्स	लिमिटे	ड		12 चुकता समता अंश पूंजी (रु. 10/ 13 अन्य इक्विटी			506.69
इस	की न्यूनतम अवधि के लिए करने में सक्षम होंगे संबंध में प्रस्ताव पत्र ("निकास प्रस्ताव पेशकश'	") शेष सार्वजनिव					~~		00DL2009PL				14 आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येव (क) मूल	० का) (अवाषिकीकृत):		2.69
की	तारीख को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर रहा है, या खो गया है, तो वे कंपनी या कंप	ां है। यदि कोई सा	ार्वजनिक शेयरधार	क अपने निकास	प्रस्ताव पत्र को प्राप्त		पजीं. कार्यालयः						(ख) तरल टिप्पणियांः			2.69
सक	ते हैं।	a district of	A N XMIN				इंडस्ट्रियल Email: investors		रोड, साहिबाबाव ks.com, Webs				1) उपरोक्त परिणामों की लेखा–परीक्ष	क समिति द्वारा समीक्षा की गड	ई है तथा परिग	णामों को f
किस	ष शेयरधारकों को विचारार्थ भुगतान गी भी नियामक अनुमोदन के अधीन, जैसा कि आ						31 मार्च, 2022 द	को समाप्त तिमाह	ी तथा वर्ष के	अंकेक्षित परिण	ामों का विवरण	2°	, अनुमोदित किया गया है। 2) कंपनी के संवैधानिक लेखा–परीक्षक	र्गे ने भारतीय प्रतिभति एवं विनि	नेमय बोर्ड (ज्ज्ज्	वीकरण टा
के सार्व	अंत के 10 कार्य दिवसों ("मासिक भुगतान च जनिक शेयरधारकों को किया जाएगा, जिन्होंने नि	क्र") के भीतर श् नकास प्रस्ताव पत्र	भुगतान करने का और संलग्न आवे	इरादा रखता है। दन फॉर्म ("निक	भुगतान केवल उन ास आवेदन प्रपत्र'')		(जब र	तक अन्यथा वर्षि	र्णत नहीं से, अ	गईएनआर लाखे	ाँमे)		वीनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुस	नार 31 मार्च 2022 को समाप्त	तिमाही एवं वर्ष	वर्ष के एकद
में वि	देए गए निर्देशों का पालन करके अपने इक्विटी शे	गेयरों को वैध रूप				क्रम सं	विवरण	3. 3.	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		 3) चूंकि कंपनी एक खण्डवार में प्रचार 4) 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 202 			
मारि सभी प्र	सक भुगतान चक्र 30 जून, 2022 से शुरू होगा। ग्रन कंपनी को पंजीकृत कार्यालय के पते पर नि	र्देशित किए जा स	कते हैं।					31.3.2022	31.12.2021	31.3.2021	31.3.2022	31.03.2021	प्रकाषित आंकड़े के संदर्भ में अंकेहि 5) पूर्ववर्ती वर्ष⁄अवधियों के आंकड़ों को,	क्षेत आंकड़ों के बीच संतुलक	आंकड़े हैं जो ज	सीमित सम
27 म	ई 2022	1078		•	कमर्शियल लिमिटेड			अनंकेक्षित (टिप्पणी 1)	अनंकेक्षित (टिप्पणी 1)	अनंकेक्षित (टिप्पणी 1)	अंकेक्षित)	अंकेक्षित	ə) पूर्ववत्ता वष्⁄ अवाधया क आकड़ा को,	जालू जवाब क वंगकिरण के अ	पुरुभ बननि क	ালেৎ, অह
and the second second	ार चांडक मार्केट, मारवाड़ी पट्टी, नंबर 6, गुवाहाटी- 785001, (असम)				वेशाल कुमार शर्मा र्णकालिक निदेशक	I.	प्रचालनों से राजस्व	1416.47	1,368.14	1,010.76 14.99	5,187.34	3,530.26				
				6)	नाईएनः 07310503	II.	अन्य आय कुल राजस्व (1+11)	11.52 14,27.99	3.46 1,371.60	1,025.75	35.51 5,222.85	95.54 3,625.80	दिनांकः 27 मई, 2022			
_						III. IV.		354.46 279.45	357.91 244.37	341.66 234.34	1,441.21 1,015.46	1,273.02 870.21	स्थानः नोएडा			
	प्रपत्र सं (कंपनी (निगमन) नियमावय	. आइए	नसा-26) प्रतापलन केंद्र	T.		सेवाओं तथा कंज्यूमैबल्स का क्रय कर्मचारी लाभ व्यय मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	554.81	508.41	445.06	1,782.64	1,235.77	111.	MEGA NIRMA	N & IN	IDUS
	(कपना (निगमन) नियमावर एक राज्य से दूसरे राज्य में कंप				लिये		वित्त लागत अन्य खर्चे	5.48 146.27	3.84 92.90	11.22 75.47	18.60 436.34	17.92 352.99		CIN:	: L70101DL1	.1983PLC
	समाचार-पत्र में प्रकाशित करने के						कुल खर्चे (IV)	1340.47	1,207.43	1,107.75	4,694.25	3,749.91 (124.11)		Regd. Off.: A-6/343B, Contact No.: 011-4987		
कंप	ानी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनि	गयम, 2013 व	की धारा 13 (4) तथा कंप	10	V. VI.	विशिष्ट मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि)(III+IV) व्यय विशिष्ट मदों	87.52	164.17	(82.00)	<u>12</u> 0		FINANCIAL RESULTS F			
	नियमावली 2014 के	नियम 30 (6	5) (ए) के म	गमले में		VII.	कर से पूर्व लाभ/(हानि)(V+VI)	87.52	164.17	(82.00)	528.60	(124.11) -				arter End
	स्किम्ड (इंडिया) प्राईवेत	तथा र लिफिटेट ि		र त्रामंत्रण		VIII.	कर व्यय क)चालू कर		80		1	20	PARTICULARS			March
۰°,	ास्कम्ड (इाडया) प्राइवर फ नं.−203, मोहता बिल्डिंग, 4, भी				6''में है. के	IX.	ख) आस्थगित कर कर से पश्चात अवधि/वर्ष के लिये लाभ/(हानि)(VII+VII	(166.50) I) 204.02	- 164.17	X as	(116.50) 645.10	(124.11)				31, 2022 Audited
	ले में आवेदक					X X	अन्य व्यापक आय		17 <u>141</u>	(82.00)	651.98	157.98	Total income from operations	refere Toul-Gardina -	and the second	20.65
2022-14	द्दारा आम जनता को सूचित किया ज		the second se		ense massere Sancerences a		 क)i)ऐसी मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकृत की जाएग ii)ऐसी मदों से संबंधित आय कर जो लाभ अथवा हानि 	में	-	157.98			Net Profit/(Loss) for the period (b & Extraordinary items & other co		puonal	9.53
	ना प्लेस, नई दिल्ली-110066'' से				Sector and the sector and the sector of the		पुनवर्गीकृत नहीं की जाएगी ख) i)ऐसी मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकृत की जाए	164.09	89	(31.64)	(164.09)	(31.64)	Equity Share Capital			334.75
	।301, उ.प्र. में उसके पंजीकृत कार्याल लिए 19.05.2022 को आयोजित अर						ii)ऐसी मदों से संबंधित आयकर जो लाभ अथवा हानि		14 <u>13</u>	76 ST	2005	_	Reserves (excluding Revaluation Earnings Per Share (of Rs. 10/-	a barrow a state of the state o		
	ालए 19.05.2022 का आयाजित अन् 11व के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम					XI.	पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी अवधि/वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (IX+X) अविध/वर्ष	के	1077				(for continuing and discontinued			
	प्रियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्ग			-	125 Sec. 19		लिये लाभ/हानि तथा अन्य व्यापक कार्य से शामिल	691.91	164.17	44.34	1,132.99	2.23	1. Basic (Rs.)	an an territori an Arabatan		0.28
प्रस्त	गव करती है।					XII.	प्रति इक्विटी शेयर आय/हानि 1)मूल	1.41 1.40	1.13 1.13	(0.57) (0.57)	4.46 4.44	(0.86) (0.86)	2. Diluted (Rs.) Notes:			
	नी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्त 1 हो . ते प्रमुगीप–21 पोर्टल (WWW						2)तरल				174	NA CON	1. The Audited Financial Results	of the company have been	prepared in	accordar
ा ला ज		MARCH MONT	And A DECK TRADE	and Might I and	and the second second	-							the second se	10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	And a second sec	New York Links

पंजीकृत कार्यालय का पता: कमरा नंबर 144. सी-विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110001

CIN: L70101DL2005GOI132162 वेबसाइट: www.hpil.co.in ईमेल :info@hpil.co.in दूरभाष :011-230621325

ं समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वि	तेमाही और	वर्ष के वित्ती	य परिणामों	क
केक्षित)	(अंकेक्षित)		सम	गप्त तिमाही के	लिए	Г
67.36	87.04	विवरण	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	3
00.27)	(325.36)	10000	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	L
00.27)	(325.36)	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)				
	(310.37)	कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों से पहले)	(956.96)	(163.04)	(821.85)	
81.88)		कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(956.96)	(163.04)	(821.85)	10
79.56)	(315.02)	कर के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(579.15)	(163,04)	(608.17)	
		करों के बाद कुल व्यापक आय और गैर नियंत्रित ब्याज	(579.15)	(163.04)	(608.17)	
31.30	231.30	प्रदत्त इक्रिटी शेयर पूंजी	28500	28500	28500	
34.48	689.96	पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व	ul.	126	(.	
		प्रति शेयर आय (संचालन जारी रखने और बंद करने से)				Γ
		बेसकि:	(0.20)	(0.06)	(0.21)	
12.19) 12.19)	(13.42) (13.42)	डायल्यूटिडः	(0.20)	(0.06)	(0.21)	
ूप का सा ol.com) ा कृते नि एस वे	115 के विनियमन र है। तिमाही और और बीएसई लि. देशकों का बोर्ड ह शर्मा, अध्यक्ष । :00041150)	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त प बैठक में अनुमोदित किया गया। इन परिणामों की लेखापरीक्षा समि नोट्स:- उपरोक्त 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bs पर भी उपलब्ध है।	ति द्वारा समीक्षा व के विस्तृत प्रारू एक्सचेंजों के सा	ही गई है और सॉ 4 का एक उद्धर थ दायर किया ग	वेधिक लेखापरीक्ष ग है, जिसे सेबी (या है। उपरोक्त स	कों (सूर्च अमाप की
त्निम् रारी गांव		स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 26 मई 2022				
	1,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r	~ ~ ~	_	
भारत इत)		[CIN: L17 पंजी. कार्यालयः 325, IIIरा तल, अ	111DL1982 गरवाल प्लाजा,		90] रोहिणी, नई दिल	ल्ली
					14778	

भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड

(CIN No: L74899HR1972PLC006203)

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 5, सेक्टर 25, बल्लभगढ़, हरियाणा- 121004

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए

लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का सार

(ईपीएस को छोडकर लाखों मे

होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल

टिप्पणीः

1. The Audited Financial Results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.

करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते : बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।	1. उपरोक्त सेवी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल समाप्त तिताही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामें के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणमों का सम्पूर्ण प्रारुप कम्पनी की वेबसाईट www.e2enet- works.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.nseindia.com पर उपलब्ध है। 2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 27 मई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। इन वित्तीय परिणामों पर सांविधिक अंकेक्षिक ने अ-संशोधित ऑडिट के अभिमत प्रकट किये है।	 The Above Audited Financial Results reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 27, 2022. The Company does not have any Exceptional or Extraordinary items to report for the above period. The Previous period's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to make them comparable. The figures for the Quarter ended 31st March, 2022/2021 are balancing figures between the Audited figures of full year and reviewed figures upto 31st December, 2021. The above is an extract of the detailed format of Quarter/ year ended Financial Results Filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full
कृत्ते एवं के लिये स्किम्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड इंरुदयाराज रिचर्ड जॉनसन स्थान : दिल्ली तिथि : 28.05.2022 DIN: 03010082	ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के लिये हस्ता./- स्थानः नोएडा तिथिः 27 मई, 2022 DIN:08057000	format of the Quarterly and year ended financial results are available on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.mnil.in For & On behalf of Mega Nirman & Industries Limited Sd/- Mohan Jagdish Agarwal Place : New Delhi Date : 27.05.2022 DIN: 07627568

.continued from previous page.

D. Allotment to QIBs (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 878 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 1.00000 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e., 62,812 Equity Shares (including unsubscribed portion of Retail category) and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 11,93,420 Equity Shares (including unsubscribed portion of Retail category) on a proportionate basis. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 12,56,232 Equity Shares, which were allotted to 15 successful Applicants.

Category	AIF	FI	Fils/FPIs	MFs	OTHs	Total
QIB	91,103	3,39,218	7,41,761	84,150	1	12,56,232

Includes spilled over of 5,79,207 Equity Shares from Retail Category.

E. Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections)

The Company in consultation with the BRLMs have allocated 16,13,725 Equity Shares to 9 Anchor Investors (through 9 Anchor Applications) at the Anchor Investor Offer Price of ₹878 per Equity Share in accordance with the SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB Portion, of the initial Offer size as envisaged at the time of Bid/Offer opening.

Category	MFs	ICs	AIFs	FPI/FIIs	Total
Anchor	5,29,601	-	79,713	10,04,411	16,13,725

The IPO Committee of our Company at its meeting held on May 26, 2022, has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful Bidders. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on May 25, 2022 and the payments to non-syndicate brokers have been issued on May 26, 2022. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on May 26, 2022 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE and NSE on May 26, 2022. The Company has received listing and trading approval from BSE and NSE on May 27, 2022, and trading is expected to commence on May 30, 2022.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 25, 2022 filed with the Registrar of Companies, Himachal Pradesh at Union Territory of Chandigarh (RoC).

INVESTORS PLEASE NOTE

These details of the Allotment made has been hosted on the website of Registrar to the Offer, KFIN TECHNOLOGIES LIMITED at www.kfintech.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application form was submitted by the Bidder and Copy of the Acknowledgment slip received from the Designated intermediary and name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:



KFin Technologies Limited

Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareedi 500 032, Telangana Tel: +91 40 6716 2222/ 180034 54001; E-mail: ethosltd@kfintech.com; Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com; Contact person: M Murali Krishna; SEBI Registration No.: INR000000221

	For ETHOS LIMITED
	On behalf of the Board of Directors
Place : Chandigarh	Sd/-
Date : May 27, 2022	Company Secretary & Compliance Officer

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ETHOS LIMITED.

ETHOS LIMITED has filed the Prospectus with the RoC on May 25, 2022 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus shall be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the BRLMs, Emkay Global Financial Services Limited at www.emkayglobal.com and InCred Capital Wealth Portfolio Managers Private Limited at www.incredsecurities.com, the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the website of the BSE Limited at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" on page 39 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for any investment decision.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company or the Selling Shareholders and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no offering of securities in the United States is contemplated. CONCEPT

nonduha

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

indianexpress.com

SATURDAY, MAY 28, 2022

FINANCIAL EXPRESS

Office of the Chief Water Analyst (W&S)-II Delhi Jal Board: Govt. of N.C.T. of Delhi The Indian EXPRESS Haiderpur Water Works, Delhi-110085 Tel.: 011-27554265 OURNALISM OF COURAGE Email: ewaws2.djb@gmail.com स्व काम काम्यल को और Short Press NIT No. 01 (22-23) Approximate Value Earnest Tender Date of release of Last date / time of Name of work No. based on Schedule of Money Fee tender in receipt of tender through rates/ Item rates/Lump (Refundable e-procurement Sum (Rs. In Lakh) e-procurement solution In Rs.) solution Deployment of unskilled labour Item Rate 61,400/--500/-26.05.2022 06.06.2022 for operation and maintenance 2022_DJB_223117_1 At 11.00 AM of treatment section for different installation of plant under CWA (W&S)-II HP. Further details in this regards can be seen at https://delhi.govtprocurement.com Sd/- (G.P. Singh) ISSUED BY P.R.O. (WATER) CWA (W&S)II HP Advt. No. J.S.V. 149 (2022-23) "STOP CORONA VIRUS- WEAR MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING & MAINTAIN HAND HYGIENE" HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED Reg. Office Address: Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, (A Government of India Enterprise) Maulana Azad Road, New Delhi 110001 CIN: L70101DL2005GOI132162 हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड Website: www.hpil.co.in (भारत सरकार का उपक्रम) Email :info@hpil.co.in Tel :011-230621325 Extracts of Financial Results for the Quarter and Year Ended on March 31, 2022 choose substance over sensation. (₹in Lakhs) For the guarter ended For the year ended Particulars 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 (unaudited) (unaudited) (unaudited) (unaudited) (unaudited) Total Income from operations (Net) -----Inform your opinion with credible journalism. (1008.38)Net Profit/(Loss) from ordinary Activities before Tax (956.96) (163.04) (821.85) (1863.86) (before Exceptional items) Net Profit/(Loss) from ordinary Activities before Tax (1008.38) (956.96)(163.04) (821.85) (1863.86) (after Exceptional items) Net Profit/(Loss) from ordinary Activities after Tax (579.15) (163.04) (608.17)(1486.05) (745.34) (after Exceptional items) Total Comprehensive income after taxes and Non (608.17)(1486.05) (745.34) (579.15)(163.04) controlling Interest Paid up Equity Share Capital 28500 28500 28500 28500 28500 Reserves excluding Revaluation Reserve as per Balance sheet of previous accounting year Earnings per share (from continuing and discontinuing 4 12 22 -20 operations) (0.26)Basic (0.20)(0.06)(0.21)(0.52)Diluted (0.20)(0.06)(0.21)(0.52)(0.26)The above results for the guarter and year ended March 31, 2022 were taken on record and approved by the Board of Directors at their held on 26.05.2022. These results have been reviewed by the Audit Committee and audited by the Statutory Auditors. NOTE:- The above is an extract of the detailed format of audited results for the year ended on March 31, 2022 filed with the with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly and year ended financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com/ www.nseindia.com) and Company's website (www.hpil.co.in)

For and on behalf of Hemisphere Properties India Limited

(Chairperson & Managing Director)

Sd/

(D. Thara)

New Delhi		
May 26, 2022		

"IMPORTANT"

TCIEXPRESS
IFADER IN EXPRESS

TCI EXPRESS LIMITED CIN: L62200TG2008PLC061781

Regd. Office : Flat Nos. 306 & 307, 1-8-271 to 273, Ashoka Bhoopal Chambers,

S.P. Road, Secunderabad - 500 003 (TG)

Corp. Office : TCI House, 69 Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122 001, Harvana Tel.: + 91 124 2384090-94, E-mail: secretarial@tciexpress.in, Website: www.tciexpress.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

		(Rs. in Crores except as stated otherwise)							
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter Ended March 31, 2021 (Audited)	Year Ended March 31, 2022 (Audited)	Year Ended March 31, 2021 (Audited)				
1	Total Income from operations (net)	300.28	282.86	1089.64	851.64				
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	48.85	54.74	172.01	132.22				
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	48.85	54.74	172.01	132.22				
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	35.93	42.57	128.85	100.60				
5	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	35.45	42.30	127.81	100.33				
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2)	7.70	7.69	7.70	7.69				
7	OtherEquity		Ст. — S	528.49	426.18				
8	Earning per share -EPS (not annualized)-In Rs.								
	Basic Earning Per Share	9.21	11.08	33.48	26.19				
	Diluted Earning Per Share	9.19	11.06	33.45	26.15				

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under 1 Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.tciexpress.in).
- The Financial Results of the Company for the Quarter and Period ended March 31, 2022 were reviewed by the Audit Committee and 2 thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 27, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out the audit of above Financial Results.
- The Board of Directors of the Company have recommended a Final Dividend for financial year 2021-22 @ 100% (i.e. Rs.2.00 per 3. share of Rs.2.00 each), for the approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting. This is in addition to the interim dividends aggregating to 300% i.e. Rs.6.00 per equity share of face value of Rs.2.00 each, declared during the financial year 2021-22.

Place	: Guri	ugra	m		
Date:	May	27,	2022	!	

TCI Express Limited Chander Agarwal (Managing Director)

Svatantra Mi Office: Sunshine Tower, Level 20, Senapati te: www.svatantramicrofin.com, Email: secr [Regulation 52 (8), read wit Extract of Financial Results for	i Bapat Marg, Elphinstone F retarial@svatantra.adityabir th Regulation 52 (4), of the S	Road, Mumbai - 40 Ia.com. CIN: U741 EBI (LODR) Regulat	0013. (S 20MH2012PTC22 ions. 2015] ed 31st Marc	
	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended

For the Indian Intelligent. he Indian Express.

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Place

Date:

GIC HOUSING FINANCE LTD. YOUR ROAD TO A DREAM HOME (CIN L65922MH1989PLC054583) Reg. Off.: National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jamshedii Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400020 Email: investors@gichf.com, corporate@gichf.com | Tel.: 022-43041900 NOTICE TO SHAREHOLDERS Transfer of Equity Shares to Investors Education and Protection Fund (IEPF)

Pursuant to the provisions of Sections 124 and 125 of the Companies Act, 2013 and Rule 6/3 of Investors Education and Protection Fund Authority Rules, 2016, as amended from time to time. Notice is hereby given to the Shareholders of the Company that in terms of the IEPF Rules, all shares in respect of which dividend has not been claimed or paid to the shareholders for the last seven consecutive years or more shall be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority within 30 days from the due date of transfer.

The Company has sent individual notices to the concerned shareholders whose dividend amount are lying unpaid/unclaimed for the last seven consecutive years or more inter alia providing details of shares to be transferred to IEPF Authority.

The Company has uploaded the list of those shareholders whose shares are due for transfer to IEPF pursuant to Rule 6(3)(a) of IEPF Rules on its website www.gichfindia.com The concerned shareholders are hereby requested to claim the unclaimed dividend for the Financial Year 2014-15 onwards on or before 31¹⁷ July, 2022, failing which with a view to comply with the Rules, the Company shall be constrained to transfer the unpaid dividend for F.Y. 2014-15 and the corresponding shares to IEPF authority without any further notice.

After transfer of shares to IEPF Authority, the shareholders can claim such dividend and shares including all benefits accruing thereon in due compliance of the procedure stipulated under the Rules. For further clarification on the above matter, the concerned shareholder may contact Company or its RTA at:

GIC Housing Finance Limited National Insurance Building, 6th Floor, 14, J. Tata Road, Churchgate, Mumbai	Mr. Anil Dalvi, Manager, M/s KFin Technologies Ltd. Unit - GIC Housing Finance Ltd, Selennium Tower B, Plot 31-32, Gachbowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032. Toll Fee No. – 040 67161631 Email : einward.ris@kfintech.com
Date - 28.05.2022	For GIC Housing Finance Limited Sd/- Nutan Singh

Date : 28.05.2022	Nutan Singh				
Place : Mumbai	Group Head & Company Secretary				

	RICHFIELD FIN Registered Office Address: 2B, Grant Land	e, 2nd Floor, Ki	olkata Kolkata Wi		012		<u> </u>
	CIN: L65999WB1992PLCC Extract of Audited Fin	ancial Resul	ts for the Quar			Sr. No.	
	and Financial	a south and the second	rter Ended	Yea	(Rupees) r Ended	1.	Tot
SI. No.	Particulars	Current Quarter ended on	Corresponding Quarter ended on	Year to Date figure for Current	Year to Date figure for previous period ended	2.	Ne Exi Ne
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	0.	(af
1	Total Income from Operations	3,85,926	14,75,564	44,10,472	1,07,17,452	4.	Ne
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,92,823	(13,82,599)	15,84,271	51,44,111		(aft aft
3	Net Profit / (Loss) for the period before				-	5.	Tot
3	tax(after Exceptional and/or Extraordinary	1,92,823	(13,82,599)	15,84,271	51,44,111	6.	Pa Ea
4	items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax						1.1
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(21,292)	(21,53,069)	13,70,156	43,55,213	Note	-
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(21,292)	(19,37,143)	13,70,156	46,91,726	Sr. No.	
6	Equity Share Capital	3,75,01,000	3,75,01,000	3,75,01,000	3,75,01,000	1	Tot
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited	4,18,62,766	4,11,74,857	4,18,62,766	4,11,74,857	2.	Ne
8	Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. /- each)					3.	Ne tax
	(for continuing and discontinued					4.	Tot
	operations) -					2.	The
	1. Basic	(0.01)		0.37	1.25	1 442/9	Com
	2. Diluted:	(0.01)	(0.52)	0.37	1.25	1	on 2
No a	te The above Financial results have been re Board of Directors of the Company at the	And the second				3.	The f (Ind) Disc
b	The above is an extract of the detailed for the Stock Exchanges under Regulation Requirements) Regulations, 2015. The f	on 33 of the	e SEBI (Listin	g and Other	Disclosure	4.	The (Vitri Repo
	are available on the websites of the Stor listed entity(www.rfsl.co.in.)					5.	Figur
C	Exceptional and/or Extraordinary items accordance with Ind-AS Rules / AS Rules			ent of Profit a	and Loss in	6.	Thes 31,2

EZEN	E2E NET Registered Offic Mohan Cooperative Industrial Estate, CIN: L72900DL2009PLC341980 Email: investo	Mathura Road	loor, A-24/9, d, Saidabad, N			b/
	Statement of audited results for t	he quarter ar	nd year ende	d March 31, 3	2022	
			(All amou	unts in INR Lak	dhs, unless oth	erwise stated
S.	Particulars	0	uarter ended		Year	ended
No.		31.03.2022 Unaudited (Note 1)	31.12.2021 Unaudited (Note 1)	31.03.2021 Unaudited (Note 1)	31.03.2022 Audited	31.03.2021 Audited
1 11	Revenue from operations Other income	1,416.47 11.52	1,368.14 3.46	1,010.76 14.99	5,187.34 35.51	3,530.26 95.54
Ш	Total revenue (I+II)	1,427.99	1,371.60	1,025.75	5,222.85	3,625.80
IV	Expenses Purchase of services and consumables Employee benefits expense Depreciation and amortisation expenses Finance costs Other expenses	354.46 279.45 554.81 5.48 146.27	357.91 244.37 508.41 3.84 92.90	341.66 234.34 445.06 11.22 75.47	1,441.21 1,015.46 1,782.64 18.60 436.34	1,273.02 870.21 1,235.77 17.92 352.99
	Total expenses (IV)	1,340.47	1,207.43	1,107.75	4,694.25	3,749.91
V VI VIII	Profit/(loss) before exceptional items and tax expense (III-IV) Exceptional items Profit/(loss) before tax expenses (V ± VI) Tax expenses (a) Current tax	87.52 87.52	164.17 164.17	(82.00) (82.00)	528.60 528.60	(124.11) (124.11)
285	(b) Deferred Tax	(166.50)		-	(116.50)	1-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12
X	Profit/(loss) for the period/year after tax (VII ± VIII) Other Comprehensive Income	204.02	164.17	(82.00)	645.10	(124.11)
	 (A) (i) Items that will not be reclassified to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will not be 	651.98	021	157.98	651.98	157.98
	reclassified to profit or loss	(164.09)	1943	(31.64)	(164.09)	(31.64
	 (B) (i) Items that will be reclassified to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit as loss 		1893) 1943		-	
XI	reclassified to profit or loss Total comprehensive income for the period/year (IX+X)(comprising profit/(loss) and other comprehensive income for the period/year)	691.91	164.17	44.34	1,132.99	2.23
XII	Earnings/(loss) per equity share 1) Basic 2) Diluted	1.41 1.40	1.13 1.13	(0.57) (0.57)	4.46 4.44	(0.86) (0.86)

Notes:

Place: Noida

Date: May 27, 2022

CINI, LOCOA AC IDODODI COFOFAD

EXXARO TILES LIMITED

Regd. Office: Survey No.-169 & 170, Vavdi Harsol Road, Mahelav, Talod, Sabarkantha-383 305, Gujarat, India.

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year ended Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended Financial Results is available on the Company's website www.e2enetworks.com and Stock Exchanges' website www.nseindia.com.
- The above audited financial results for the year ended March 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at its meeting held on May 27, 2022. The Statutory Auditor have expressed an unmodified audit opinion on these financial results.

For and on behalf of board of directors of E2E Networks Limited

Sd/-

Srishti Baweja Director - DIN: 08057000



	YEAR ENDE	D 315 MARCH 2	2022	(Rs in Lakhs exce	ept per shares data	
		Quarter	Ended	Year Ended		
Sr. No.	Particular	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
NU.		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total Income from operation	9893.96	8866.38	32666.36	25985.33	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1083.40	584.99	2614.84	1716.06	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1083.40	584.99	2614.84	1716.06	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and after minority interest))	749.58	437.18	1810.14	1522.35	
5.	Total Comprehensive Income for the period	742.49	444.36	1808.75	1529.94	
6.	Paid up Equity Share Capital	4474.11	3355.51	4474.11	3355.51	
7.	Earnings Per Share (of Rs: 10/- each)					
1	1. Basic:	1.84	1.30	4.45	4.54	
2	2. Diluted:	1.84	1.30	4.45	4.54	
Sr.	Particular	Quarter Ended		Year Ended		
No.		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
1000		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total Income from operation	9893.96	8866.38	32666.36	25985.33	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1083.75	584.99	2615.20	1716.06	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	749.93	437.18	1810.50	1522.35	
4.	Total Comprehensive Income for the period	742.84	444.36	1809.11	1529.94	
3. 4. 5. 6.	The Company's financial results for the quarter & y Committee and subsequently approved & taken on re on 27th May, 2022. The statutory auditors have express The financial results have been prepared in accordan (Ind AS) prescribed under section 133 of The Compa Disclosure Requirement) Regulation 2015 (as amend The Company's Operations fall under a single segr (Vitrified Tiles)". Hence, Segment reporting is not app Reporting. Figures of previous reporting periods have been re- figures of the current reporting period. These financial results have been extracted from the 31, 2022 represent the difference between the audite for the nine months ended December 31, 2021.	ecord by the Boa ssed unmodified ce with the Com inies Act, 2013 a led) and circulars ment "Manufact licable as per Inc grouped/reclass audited financia	ard of Directors of audit opinion on t panies (Indian Ac and Regulation 33 s and notifications uring and Tradin dian Accounting S ified wherever n I statements. Fig ect of full financia	the Company at these financial res counting Standar of SEBI (Listing issued thereund g of refractory of tandard (Ind AS) ecessary to corru ures for the quar	its meeting held sults. rds) Rules, 2015 Obligations and er. eramic products - 108 - Segment espond with the ter ended March published figures	
	IOF TRATING THOMATS CHOCA DECEMBER 31, 2021.					

No.	Particulars	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2022	31/03/2021
	and degrad when Weither P and	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	25,036	20,505	81,974	55,685
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,565	1,329	6,309	3,684
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,565	1,329	6,309	3,684
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,514	917	4,727	2,708
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,517	920	4,685	2,699
6	Paid up Equity Share Capital	25,205	25,205	25,205	25,205
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	11,213	17,693	11,213	6,493
8	Securities Premium Account	4.00	4.00	4.00	4.00
9	Net worth (including Compulsory Convertible Non-Cumulative Preference Shares)	86,918	75,898	86,918	57,198
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	480,434	395,171	480,434	306,496
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-		
12	Debt Equity Ratio	5.03	5.21	5.03	5.10
13	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each)				
	1. Basic:	0.64	0.18	0.88	0.79
	2. Diluted:	0.64	0.18	0.88	0.79
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results is available on the website of BSE (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.svatantramicrofin.com).

For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 pertinent disclosures have been made to the BSE and can be accessed on the website of BSE (www.bseindia.com) and on the Company's website (https://svatantramicrofin.com).

As per the exemption given by SEBI vide circular No.SEBI/HO/DDHS/CIR/2021/000000637 dated 05 October 2021 the results for the corresponding guarter ended March 2021 have not been provided . By order of the Board

For Svatantra Microfin Private Limited

Sd/-Place : Mumbai Ms. Ananyashree Birla (Director) Date: 26.05.2022 DIN: 06625036


Spero Properties and Services Private Limited Corporate Identity Number (CIN) : U74999MH2017PTC302943									
	Registered Office : One International Center, Tower-1,10th Floor, Plot No. 612-613, Senapati Bapat Marg, Mumbai - 400013								
	EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2022 (Rs. in thousands)								
		Quarter	r Ended	Financial	Year ended				
	Particulars	31 March 2022	31 March 2021	31 March 2022	31 March 2021				
		(Unaudited) (Refer note 4)	(Unaudited) (Refer note 5)	(Audited)	(Audited)				
1.	Total income from operations	15,489.98	13,293.38	57,461.04	53,507.53				
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, and exceptional items)	(116,654.88)	(3,509.90)	(121,383.16)	(9,904.51)				
	(after exceptional items)	(116,654.88)	(3,509.90)	(121,383.16)	(9,904.51)				
4.	(after exceptional items)	(116,654.88)	(3,509.90)	(121,383.16)	(9,904.51)				
5.	Total Comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(116,654.88)	(3,509.90)	(121,383.16)	(9,904.51)				
6.	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10 per Equity Share)	1,000.00							
7.	Reserves (excluding revaluation reserve)	(137,199.73)	(15,816.57)	A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACT					
8.	Net Worth*	3,264,950.27	3,386,333.43		3,386,333.43				
9.	Paid up debt capital / outstanding debt	4,948,596.11	4,000,000.00						
	Debt Equity Ratio**	1.52	1.18	1.52	1.18				
	Earnings Per Share (EPS) (not annualized, except for the year ended 31 March 2021 and 31 March 2022) - Basic and Diluted (Amount in Rs.)	(0.34)	(0.01)						
	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	E 100 35	1				
apressing.	Debt Service Coverage Ratio***	0.11	0.10						
14	Interest Service Coverage Ratio****	0.11	0.10	0.10	0.10				
** equ ** rep	Net worth = Equity share capital + Instruments et *Debt equity ratio = Debt/Equity and Equity = Equit quity **Debt service coverage ratio = Earning before of payment (excluding prepayments)) ***Interest service coverage ratio = Earning befor Interest expense includes interest capitalized	ity sháre capital - depreciation, int	+ Instruments e terest and tax/(I	entirely equity in (Interest expense	se# + Principal				

Notes to the Financial Results:

Place : Mumbai

- 1 These financial results of Spero Properties and Services Private Limited ('the Company') for the year ended 31 March 2022 have been approved by the Board of Directors ('the Board') at its meeting held on 27 May 2022 and audited by statutory auditors of the Company. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.
- 2 On 10 August 2021, the Company completed issuance and listing of its non-convertible debentures ('NCDs') in terms of Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations and accordingly, the financial results for the quarter and year ended 31 March 2022 are prepared regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) ('the Listing Regulations') and including relevant circulars issued by SEBI from time to time.
- 3 During the period, the Company had issued NCDs amounting to Rs. 4.950.000 thousands (listed on stock exchange) on 'BSE') and these debentures are repayable after 10 years from the date of issue. Interest is payable on annual basis from 31 March 2025 at the rate of 6% per annum and redeemable at a premium. These NCDs are unsecured.
- Figures for the quarter ended 31 March 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2022 and the reviewed figures for the nine months ended 31 December 2021.
- The figures for the corresponding quarter ended 31 March 2021 represents the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2021 and the figures for the nine months period ended 31 December 2020, which have been certified by the Company's Management but have not been subjected to audit or review.
- 6 ICRA has assigned the long-term rating of "BBB -ve (Stable)" to long-term fund based borrowings of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of the guarterly and Annual Financial Results filed with the Stock 7 Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the guarter and Annual financial results are available on the website of BSE (http://www.bseindia.com) For and on behalf of Board of Directors

Date : 27 May 2022





Place : Kolkata

Date : 27.05.2022



Sd/-

DIN: 09194854

By order of the Board of Directors

For RICHFIELD FINANCIAL SERVICES LTD

VADASSERIL CHACKO GEORGEKUTTY







